



Savitri Devi DAV Public School, Jamtara

Diwali and Chhath Puja Holiday Homework

English











Class-I

- ENGLISH PRACTICE BOOK-- Do page no. 43 in copy with pictures.
- ENGLISH READER-- Do page no. 50 in copy.
- Write one page cursive writing in English cursive writing book daily.
- PROJECT--- 1. Make a wall hanging of " ONE- MANY" with pictures and decorate it. For project 1 (ROLL no. 1 to 14.)
- 2. Make a project based on pronoun. For project 2 (ROLL no. 15 to 28.)



- WORKSHEET-- Print out these worksheets first and then solve it.

Q. Write many for the following:

	ONE		MANY
1.	 Ball	- 	_____
2.	 Tree	- 	_____
3.	 Hat	- 	_____
4.	 Book	- 	_____
5.	 Kite	- 	_____



HINDI

- भाषा अभ्यास-- Page no. 31 और 35 सचित्र कॉपी में बनाये।
- PROJECT-- दस विलोम शब्दों का एक chart paper में सुन्दर से सजाकर लिखे।
- प्रतिदिन एक पृष्ठ हिन्दी सुलेख लिखे, हिन्दी सुलेख किताब में।

WORKSHEET----

सही शब्द छाँटकर खाली स्थान भरिए –

1. _____ ने दहाड़ लगाई। (चिड़िया / शेर)
2. रमन _____ पर चढ़। (रेल / खेल)
3. सबने जादू का _____ देखा। (मेला / खेल)
4. दिनेश _____ जला। (सवेरे / लालटेन)
5. हमने _____ में सरकस देखा। (मेले / ठेले)
6. कमला मेरी _____ है। (सहेली / सवेरा)
7. सबने _____ खाए। (सेब / पानी)

कार्य पत्रिका- विपरीतार्थक शब्द

परिभाषा: जो शब्द - युग्म एक - दूसरे का विपरीत अर्थ प्रस्तुत करते हैं विपरीतार्थक कहलाते हैं। इन्हें विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाला शब्द भी कहते हैं।

प्रश्न 1 - निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए।

क.) प्रसन्न

अंधकार

ख.) मित्र

अप्रसन्न

ग.) प्रकाश

शत्रु

घ.) अमीर

भारी

ङ.) हल्का

गरीब

च.) अच्छा

गीला

छ.) सूखा

बुरा

ज.) ठंडा

उत्तर

झ.) प्रश्न

गरम

ञ.) अपना

साफ

ट.) गन्दा

पराया



इन चित्रों का Print out निकालकर उन्हें भरे।

EVS

1. Draw 5 different kind of leaves
2. Draw and colour a christmas Tree
3. Draw and lable different parts of a Tree
4. Draw and colour one house which can be moved and also name it.

PROJECT- Make a decorative Diya using clay and write 5 lines sharing your experience on Diwali.

MATHS

Project - Draw 5 objects like Table, window, door, bed, book and measure its length using stride, palm, handspan and cubits .

1. Add and subtract

a)	$\begin{array}{r} T \ O \\ 3 \ 0 \\ + 2 \ 0 \\ \hline \end{array}$	b)	$\begin{array}{r} T \ O \\ 8 \ 0 \\ - 2 \ 0 \\ \hline \end{array}$	c)	$\begin{array}{r} T \ O \\ 6 \ 0 \\ + 3 \ 0 \\ \hline \end{array}$	d)	$\begin{array}{r} T \ O \\ 4 \ 0 \\ - 3 \ 0 \\ \hline \end{array}$
----	--	----	--	----	--	----	--

e)	$\begin{array}{r} T \ o \\ 8 \ 0 \\ - 8 \ 0 \\ \hline \end{array}$	f)	$\begin{array}{r} T \ o \\ 6 \ 0 \\ + 1 \ 0 \\ \hline \end{array}$	g)	$\begin{array}{r} T \ o \\ 2 \ 0 \\ + 4 \ 0 \\ \hline \end{array}$	h)	$\begin{array}{r} T \ o \\ 3 \ 0 \\ + 4 \ 0 \\ \hline \end{array}$
----	--	----	--	----	--	----	--

2. Draw abacus of the following number.

- a) 110 b) 216 c) 108 d) 161

3. Compare ($>$, $<$, $=$)

- | | |
|--------------|--------------|
| a) 60 ___ 60 | d) 96 ___ 69 |
| b) 70 ___ 65 | e) 52 ___ 52 |
| c) 66 ___ 76 | f) 72 ___ 81 |

4. Ascending order .

- a) 30, 46, 34, 25, 49, 75
b) 44, 47, 49, 48, 46, 45

5. Descending order.

- a) 24, 39, 18, 35, 38, 27
b) 6, 8, 89, 98, 19, 79